



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 अग्रहायण 1946 (श0)

(सं0 पटना 1188) पटना, मंगलवार, 10 दिसम्बर 2024

सं० सै0क0नि0 / 20 / 28 / 2021—2035  
गृह विभाग (आरक्षी शाखा)

संकल्प

3 दिसम्बर 2024

विषय : शौर्य पुरस्कार विजेताओं एवं मरणोपरांत उनके निकटतम आश्रितों को दी जा रही नकद पुरस्कार की राशि में बढ़ोतरी की स्वीकृति के संबंध में।

गृह विभाग, सैनिक कल्याण निदेशालय के संकल्प संख्या 682 दिनांक 09.08.2010 द्वारा सशस्त्र सेनाओं के शौर्य पुरस्कार विजेताओं एवं मरणोपरांत उनके निकटतम आश्रितों को एकमुश्त नकद पुरस्कार की राशि निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (Column) (ग) के अनुसार प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा इस राशि में पुरस्कारों के वरीयता क्रम (Order of Precedence) को ध्यान में रखते हुए निम्न सारणी के स्तम्भ (घ) के अनुरूप संशोधन करने का निर्णय लिया गया है :-

क्र० सं०	शौर्य पुरस्कार का नाम	वर्तमान राशि	संशोधित राशि
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
युद्ध के दौरान शौर्य पुरस्कार			
(i)	परमवीर चक्र	10 लाख	1 करोड़
(ii)	अशोक चक्र	8 लाख	75 लाख
(iii)	महावीर चक्र	5 लाख	50 लाख
युद्ध/शांति काल के दौरान शौर्य पुरस्कार			
(i)	कीर्ति चक्र	4 लाख	10 लाख
(ii)	वीर चक्र	2 लाख	09 लाख
(iii)	शौर्य चक्र	1.5 लाख	08 लाख
(iv)	सेना/नौ सेना/वायु सेना मेडल (शौर्य)	75 हजार	07 लाख

क्र० सं०	शौर्य पुरस्कार का नाम	वर्तमान राशि	संशोधित राशि
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
(v)	मेन्शन-इन-डिसपैचेज	50 हजार	06 लाख
<b>युद्ध या शांति काल में विशिष्ट सेवा पुरस्कार</b>			
(i)	सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल	07 लाख	7.5 लाख
(ii)	परम विशिष्ट सेवा मेडल	1.5 लाख	4.5 लाख
(iii)	उत्तम युद्ध सेवा मेडल	03 लाख	04 लाख
(iv)	अति विशिष्ट सेवा मेडल	01 लाख	3.5 लाख
(v)	युद्ध सेवा मेडल	01 लाख	03 लाख
(vi)	सेना/नौ सेना/वायु सेना मेडल (विशिष्ट)	75 हजार	02 लाख
(vii)	विशिष्ट सेवा मेडल	50 हजार	01 लाख

2. राशि का व्यय मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-092-अन्य कार्यालय, उप शीर्ष-0002-स्थल, जल एवं वायु सैनिकों का पार्षद-मुख्यालय प्रभार माँग संख्या-22, विपत्र कोड-22-2052000920002 के अन्तर्गत प्राथमिक ईकाई शीर्ष 05 01 पुरस्कार मद से विकलनीय होगा। इस मद में आवंटित राशि की निकासी सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

3. उपरोक्त संशोधन संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा। शेष शर्तें संकल्प संख्या 682 दिनांक 09.08.2010 के अनुरूप होंगी।

**आदेश :** आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ महानिदेशक, पुनर्वास महानिदेशालय, वेस्ट ब्लॉक-4, आर० के० पुरम, नई दिल्ली-110066/महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, ब्लॉक-1, सी०जी०ओ० कम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003/ महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ब्लॉक-13, सी०जी०ओ० कम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003/महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, ब्लॉक-10, सी०जी०ओ० कम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003/ महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल, पूर्वी ब्लॉक-5, आर० के० पुरम, नई दिल्ली-110066/ महानिदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, ब्लॉक-4, सी०जी०ओ० कम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003/ महानिदेशक, असम राईफल्स, शिलांग- 793010/सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक -4, विंग न०-5, आर० के० पुरम, नई दिल्ली - 110066/अतिरिक्त महानिदेशक जनशक्ति (नीति एवं योजना) एमपी-5 एडजुटेंट जनरल शाखा, रक्षा मंत्रालय, एकीकृत मुख्यालय (सेना) वेस्ट ब्लॉक-3, आर० के० पुरम, नई दिल्ली-110066/एयर वेटेरन्स निदेशालय, प्रथम तल, डब्ल्यूएसी एसएमसी बिल्डिंग, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-110010/नौसेना मुख्यालय, सादथ ब्लॉक, निर्माण भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110011/सचिव, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, सादथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110011/जनरल अफसर कमांडिंग, मुख्यालय, झारखण्ड एवं बिहार सब एरिया, दानापुर/पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार सेक्टर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, आशियाना-दीघा रोड, पटना-800025/सभी अभिलेख कार्यालय/ निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय/सभी जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी को अग्रसारित की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अरविन्द कुमार चौधरी,  
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1188-571+200-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>